

नटवर लाल:यू-ट्यूब से सीखा, कर्जा ले लिया प्रिंटर, 8 लाख के छापे फर्जी नोट



जाली करंसी छापने वाले एक शख्स को थाना जमालपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसने शहर में जाली करंसी छापने के बाद चला भी दी। पुलिस को आरोपी की पहचान मंदीप सिंह उर्फ सत्री के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 4.09 लाख की नकली करंसी, देसी कट्टा, तीन राउंड और प्रिंटर बरामद हुआ है। शनिवार को पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी कि उसने नोट कितने में किस-किस को बेचे हैं। ये भी मालूम चला है कि आरोपी ने नकली नोट से ही असलहा खरीदा था।

पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी 8 लाख रुपए के करीब नोट छाप चुका है, जिसमें से 2 लाख वो अपने जानकार को दे चुका था। जिसमें से एक लाख रुपए मार्केट में चला चुका है। उसकी कमीशन भी उसे मिल चुकी है।

आठवीं पास ने 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद छापे नोट

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया वो आठवीं पास है। नौकरी न होने की वजह से क्वार्टर में ही रहता था। करीब दो महीने पहले उसने अपने फोन पर यू-ट्यूब पर देखा था कि नोट कैसे छापते हैं। जिसमें बताया गया था कि बिना कंप्यूटर के सिर्फ कलर प्रिंटर की मदद से नोट छापे जा सकते हैं। लिहाजा उसने 15 दिन तक लगातार

यू-ट्यूब पर वीडियो देखा। लेकिन अब परेशानी थी कि प्रिंटर कहां से आएगा। उसने अपने एक जानकार से पैसे उधार लिये और फिर मार्केट से कलर प्रिंटर खरीदा।

जिसके बाद बाजार से शीट्स लीं और चार दिन तक नोट छापता रहा, लेकिन गलत छपने की वजह से पेपर कैसे लगाते हैं, इसका तरीका सीखा। जिसमें वो सफल रहा। जिसके बाद उसने 100-100, 200-200, 500-500 और 2-2 हजार के नोट छापे। जिसे उसने अपने एक दोस्त की मदद से मार्केट में चलाया। जिससे घर का सामान और शराब खरीदी थी।

आरोपी को सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। उससे प्रिंटर, नकदी और पिस्तौल बरामद हुआ है। आरोपी ने ऑनलाइन ये सब सीखा है। इसके गिरोह में एक और शख्स है, उसकी तलाश की जा रही है। - बिक्रमजीत सिंह, एसएचओ जमालपुर

Source: <https://www.bhaskar.com/local/punjab/ludhiana/news/learned-from-youtube-took-loan-from-printer-raided-fake-notes-of-8-lakhs-130181560.html>